

COVID-19 महामारी के दौरान धोखों और घोटालों से सावधान रहें

अपराधी COVID-19 महामारी का उपयोग जनता के साथ घोटाला करने के लिए कर रहे हैं - शिकार न बनें।

नए कोरोनावायरस के कारण होने वाली यह बीमारी, COVID-19, अब आधिकारिक रूप से दुनिया भर में महामारी बन गई है। दुनिया भर में अपराधी इस संकट का उपयोग जनता के साथ घोटाला करने के लिए कर रहे हैं, महामारी का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए वे कमजोर समूहों को निशाना बना रहे हैं। यूके की राष्ट्रीय धोखाधड़ी रिपोर्टिंग सेवा, एक्शन फ्रॉड ने मार्च 2020 में कोरोनावायरस से संबंधित धोखाधड़ी में 400% की वृद्धि दर्ज की है।

पुलिस और अन्य सरकारी संस्थाएँ मिलकर इन घोटालों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए और जनता को धोखाधड़ी के प्रति सतर्क करने के लिए काम कर रहे हैं।

क्राउन प्रॉसिक््यूशन सर्विस ने निम्नलिखित सलाह साझा की है:

रुकें: अपने पैसे या जानकारी किसी को देने से पहले रुक कर कुछ पल के लिये सोचना आपको सुरक्षित रख सकता है।

चुनौती दें: क्या यह नकली हो सकता है? किसी भी अनुरोध का अस्वीकार, इनकार या उसे अनदेखा करना ठीक है। केवल अपराधी ही आपको हडबड़ी करने या घबड़ाहट पैदा करने की कोशिश करेंगे।

रक्षा करें: यदि आपको लगता है कि आप किसी घोटाले में फँस गये हैं तो तुरन्त अपने बैंक से संपर्क करें और एक्शन फ्रॉड को इसकी रिपोर्ट करें।

हमने समय निकाल कर घोटाले की विभिन्न रिपोर्टों का अध्ययन किया है और आपके लिए एक सूची बनाई है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए।

*कृपया ध्यान दें कि यह सूची किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है, और अपराधी व्यक्तियों को निशाना बनाने के अन्य तरीके ढूँढ सकते हैं, इसलिये हमेशा सतर्क रहें।

- वायरस के लिए परीक्षण: वायरस परीक्षण किटें ब्रिटेन में केवल NHS द्वारा दी जाते हैं।
- टीके/इलाज: वर्तमान में COVID-19 के लिए कोई टीका या इलाज नहीं है।
- नकली उत्पाद: कोरोनावायरस से खुद को बचाने के लिए अधिक कीमतवाले या नकली सामानों में उछाल आया है। इनमें जीवाणुरोधी जैल, मास्क आदि शामिल हैं।
- खरीदारी/दवा वितरण: अपराधी कमजोर लोगों को उनके दरवाजे पर आकर निशाना बनाते हैं और उनकी खरीदारी करने या दवा देने की पेशकश करते हैं।
- सफाई सेवा: वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सफाई सेवाएं प्रदान करना।
- फ़िशिंग ईमेल/टेक्स्ट संदेश: आपको दुर्भावनापूर्ण संलग्नकों को खोलने के लिए बरगलाने वाले संदेशों से सावधान रहें, जिनसे जालसाज़ी करने वाले व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच सकते हैं।

एक्शन फ्रॉड द्वारा निम्नलिखित ई-मेलों को पहचाना गया है:

1. जालसाज़ किसी अनुसंधान समूह से संबंधित होने का नाटक करते हैं जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की नकल करते हैं। वे पीड़ित को उनके क्षेत्र में सक्रिय संक्रमणों की सूची प्रदान करने का दावा करते हैं।
2. वायरस के प्रकोप के बारे में लेख प्रदान करने वाले जालसाज़ एक नकली कंपनी की वेबसाइट का लिंक देकर, पीड़ितों को ताज़ा जानकारी के लिए दैनिक समाचार-पत्र के सदस्य बनने के लिए क्लिक करने को प्रोत्साहित करते हैं।
3. जालसाज़ लोगों को निवेश योजना और व्यापार सलाह भेज कर कोरोना वायरस के कारण आयी हुई मंदी का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
4. HMRC का प्रतिनिधित्व करने का नाटक करने वाले जालसाज़ करवापसी का प्रस्ताव देते हैं और पीड़ितों का व्यक्तिगत और वित्तीय विवरण हासिल करने के लिए उन्हें एक फर्जी वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देश देते हैं।

यदि आपको या आपकी जान-पहचान के किसी व्यक्ति को किसी घोटाले का निशाना बनाया गया है, तो आपको ऑनलाइन www.actionfraud.police.uk/ पर जा कर या 0300 123 2040 पर कॉल करके एक्शन फ्रॉड के पास इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।

यह पता करने के तरीके के बारे में सलाह और जानकारी के लिए कि क्या कोई चीज़ घोटाला हो सकती है या नहीं, इस वेबसाइट पर जाएं: www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/।

यह अनुवाद स्वतंत्र अनुवादकों की हमारी प्रशंसनीय टीम द्वारा स्वैच्छिक आधार पर तैयार किया गया

हिन्दी